

प्रारूप आरजी - 2
Form RG - 2



भारत सरकार
Government of India
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री
Trade Marks Registry

क्रमांक
No. 2391380

व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999
Trade Marks Act, 1999

व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, धारा 23 (2), नियम 56 (1)
Certificate of Registration of Trade Mark, Section 23 (2), Rule 56 (1)

व्यापार चिन्ह संख्या / Trade Mark No. 4265652

दिनांक /Date 14/08/2019

ज. संख्या /J. No. 1920

यह प्रमाणित किया जाता है कि जिस प्रकार चिन्ह की समाकृति इसके साथ संलग्न है, वह
के बारे में दिनांक नाम से रजिस्ट्रीकृत हो चुका है।

Certified that Trade Mark / a representation is annexed hereto, has been registered in the name(s) of:-
RUCHI BHARALAWALA, PLOT NO. S4 E1-20/A, INFO VALLEY II, EMC PARK, KHURDA-752054, ODISHA, INDIA, Sole proprietor of MJS SHANTI SOLAR, (Single Firm)

In Class 9 Under No. 4265652 as of the date 14 August 2019 in respect of

Goods and service as annexed

Trade Mark as annexed

मेरे निर्देश पर आज के मास के वे दिन को इस पर मुद्रा लगायी गई

Sealed at my direction, this 08th day of February, 2020



Okuyale

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री
Trade Marks Registry MUMBAI

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार
Registrar of Trademarks

रजिस्ट्रीकरण आवेदन की तारीख से १० वर्ष के लिए है और तदोपरान्त वह १० वर्ष की कालावधि के लिए और प्रत्येक १० वर्ष की कालावधि के अवसान पर भी नवीनीकृत किया जा सकेगा।

Registration is for 10 years from the date of application and may then be renewed for a period of 10 years and also at the expiration of each period of 10 years.

यह प्रमाणपत्र विधि कार्यवाहियों में प्रयोग के लिए या विदेश में रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने के लिए नहीं है।

This certificate is not for use in legal proceedings or for obtaining Registration abroad.

टिप्पणी - इस व्यापार चिन्ह के स्वामित्व में कोई परिवर्तन होने पर, या कारोबार के मुख्य स्थान के पते में या भारत में तामील के लिए पते में परिवर्तन होने पर परिवर्तन के लिए आवेदन तुरंत किया जाना चाहिए.

Note: Upon any change of ownership of this Trademark, or change in address, of the principal place of business or address for service in India a request should **AT ONCE** be made to register the change.

Trade Mark No. 4265652

Annexure of Certificate No.: 2391380

Date 14/08/2019



Class	Goods Description
9	Apparatus and instruments allowing the leading, distribution, transformation, accumulation of solar or thermal electrical energy, parts and components of this apparatus and instruments; photovoltaic cells, photovoltaic modules, parts and components of photovoltaic cells and modules; apparatus for converting light (sunlight or artificial light) into electricity, solar cells, solar modules (solar cells assembled to form solar plates, panels or generators); electrical switches and controllers for solar cells, solar modules, solar collectors.